



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 685) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2015

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

आदेश
28 मई 2015

सं0 3145—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02 पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.07 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत का पत्रांक-80 दिनांक 05.01.2015 द्वारा प्राप्त प्रमाण-पत्र, (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, वंशावली प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र) एवं शपथ पत्रों तथा जिलापदाधिकारी नालंदा का ज्ञापांक-08/मु0/स्था0 दिनांक 05.11.14 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग चार के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित है, के आलोक में श्री कृष्ण मोहन कुमार मल्लाह, पिता-स्व0 सिपाही मल्लाह (भूतपूर्व अनुसेवक) ग्राम-पतार, पो0-पतार, थाना-रघुनाथपुर, प्रखंड-आन्दर, जिला-सिवान को अनुकम्पा के आधार पर वेतनमान पी0वी0-I (वेतनमान 5200-20200)+ग्रेड पे0-1800/- रुपये में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है। श्री मल्लाह को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सिवान-2 में वर्ग चार के (अनुसेवक पद) रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 सिपाही मल्लाह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री कृष्ण मोहन कुमार मल्लाह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

4. संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

5. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

6. अगर श्री मल्लाह की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

7. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

8. श्री मल्लाह की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का पत्रांक-8295 दिनांक 20.03.15 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जाँच करा लिया गया है।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें सरकार या विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 685-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>